

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17—जनवरी 23, 2015 (पौष 27, 1936)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17—JANUARY 23, 2015 (PAUSA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 दिसंबर 2014

सं. डीपीपर्स.1/2014/102/3/58/96-पर्स.1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.10. के आदेश 2014 सं. 221/08/2002.एवीडी-II ब्यूरो को दिनांक.अ.के ,पुलिस उपाधीक्षक ,के अनुसरण में श्री सैय्यद साजिद अली (बी) 31.10.इसलिए वह भविष्य ,से उनकी सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है 2014य में सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए साधारणतः अयोग्य होंगे।

दीपिका सूरी

उपनिदेशक- (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 दिसंबर 2014

सं. डीपीपर्स.1/2014/103/11/53/20—14राष्ट्रपति, केरो के निम्नलिखित सहायक लोक अभियोजकों को उनकेब्यू .अ. नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रोन्नति पर लोक अभियोजकों के

रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्ति की तिथि
1	गायकवाड प्रशान्त कुमार बाली राम	23.05.2014
2	माधवेन्द्र सारस्वत	21.07.2014
3	सुश्री पूर्णिमा गुप्ता	29.05.2014
4	अभिलाष कुमार	22.05.2014
5	अर्पित अनन्त मिश्रा	22.05.2014

डीसिंह .पी.

प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.1/2014/104/11/53/2014—राष्ट्रपति, के लोक अभियोजकों को उनके रो के निम्नलिखित वरिष्ठब्यू .अ. नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रोन्नति पर उप विधि सलाहकार के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	उप विधि सलाहकार के रूप में नियुक्ति की तिथि
1	अंकुर सरकार	05.11.2013
2	डी.के.सक्सेना	07.11.2013
3	वी.एन.अनिल कुमार	26.11.2014
4	टी. वेंकट रमन	27.11.2014
5	शैला कुमार भट्ट	10.11.2014
6	बृजेश शुक्ला	05.12.2014
7	बाबू लाल मीणा	14.11.2014
8	सुश्री बीना रायज़ादा	17.11.2014

डीसिंह .पी.

प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय,

ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 5 जनवरी 2015

सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/2556—ज्ञापन सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/2521 दिनांक 31.12.2014 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 1069 दिनांक 31.12.2014 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2 (रु. 9300—रु. 34800/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है ।

क्रं. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	सुधाकर महापात्र	02.01.2015 अपरान्ह

भगवान नायक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 2 जनवरी 2015

सं. ओई (ई एण्ड सी)/ई IV/पी/14-15/255 :—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती वसंताकुमारी वी के	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2014 अपराह्न (अधिवर्षिता)
2.	श्री अरविंदाक्षन टी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2014 अपराह्न (अधिवर्षिता)
3.	श्रीमती लक्ष्मि अम्माल डी	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2014 अपराह्न (अधिवर्षिता)
4.	श्रीमती बीनाम्मा एम एस	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2014 अपराह्न (अधिवर्षिता)
5.	श्रीमती प्रेमाकुमारी पी एम	वरिष्ठ निजी सचिव प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2014 अपराह्न (अधिवर्षिता)

ह. अपठनीय/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171 004, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

सं. 5/1/2014.सी.पी.आई.—नवम्बर, 2014 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 253 (दो सौ तिरपन) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/4663—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, के श्री पी. रघुकुमार, वरिष्ठ क्रय सहायक (वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200), हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एकक (हैक्षेत्र), क्रभनि, हैदराबाद को दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 के पूर्वान्ह से अगला आदेश होने तक इंदौर क्षेत्रीय क्रय एकक, इंदौर में सहायक क्रय अधिकारी (वेतन बैंड- 2 रु. 9300- 34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800), के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबळे
प्रशासन अधिकारी-III

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/4666—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, के श्री बी अनिल कुमार, वरिष्ठ क्रय सहायक (वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200), केंद्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुंबई को दिनांक

01 दिसम्बर, 2014 के पूर्वान्ह से अगला आदेश होने तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी (वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800), के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबळे
प्रशासन अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई - 400 094, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-कोटा/2014/6123—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, सहायक लेखाकार, भा.प.अ.केंद्र, मुंबई, कु. अनिता गंगाराम वझे (पीबी - 2, रु. 9300 - 34800 + ग्रेड वेतन रु. 4600), को दिनांक 06.09.2014 के (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड - रु. 9300 - 34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800 में भारी पानी संयंत्र, कोटा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के.एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी - III

शहरी विकास मंत्रालय

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

सं. 27-SDG/M(1)/14-EC.I—श्रीमति शिप्रा मित्रा, विशेष महानिदेशक (मु.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप दिनांक 30.11.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

विश्वनाथ साहू
अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

स. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	33421	लीड्स बिजिनस सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
2	32598	टिवाना यंग फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3	35047	इंडियन इंफ्रा हार्टस प्राईवेट लिमिटेड
4	23906	भाविक इंफोटैक प्राईवेट लिमिटेड
5	37396	पंचतत्व इंफोटैल प्राईवेट लिमिटेड
6	38496	ल्यूमीनस मरकनटार्इल प्राईवेट लिमिटेड
7	35340	फतेह फार्म फ्रैश प्राईवेट लिमिटेड
8	06540	इंडो प्रिंट लिंक प्राईवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
9	27341	गुरुकुल आधारशीला कम्पीटीशनस प्राईवेट लिमिटेड
10	34191	साईरस हैल्थ कॉनसैप्ट प्राईवेट लिमिटेड
11	22493	सर्वधर्म एजुकेशनलिट्स लिमिटेड
12	29383	डिवाईन स्टोक एडवाइजर प्राईवेट लिमिटेड
13	35749	सोशल सर्च बुक डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
14	11388	तास्का स्टील प्राईवेट लिमिटेड
15	35872	वाटर इवेंट प्लेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
16	34195	सी एस जे होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
17	33772	कैट ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
18	30839	आईडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
19	33756	टैटला कोम्प प्राईवेट लिमिटेड
20	23533	अदितकोन कॉम प्राईवेट लिमिटेड
21	30993	ग्लोब प्रोमोटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
22	34718	ए-एन पी ए सोल्यूसन प्राईवेट लिमिटेड
23	37096	रॉयले इंफ्रा मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड
24	33494	क्यू ब्लोक्स इ-कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
25	35881	एम एस बी इंफोसर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
26	13542	सजल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27	34502	फ्रोग टच नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
28	34054	यू वी आर प्रोमोटर्ज एंड डिवेलपर्ज प्राईवेट लिमिटेड
29	28014	सनागा सॉफ्टवेयर सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
30	26817	ए एन आर वीजा कन्सलटैंट्स प्राईवेट लिमिटेड
31	29887	दत्ता डिजिटल टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
32	33253	मौर कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
33	36739	सोर्सकी आई टी सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
34	34217	नार्थ जोन क्रशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
35	32371	बी एस एस वैन्चर प्राईवेट लिमिटेड
36	26779	कमल नर्सिंग होम एंड सेखरी ट्रूमा सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
37	34583	स्पॉजो इंटरनैशनल वैचर्स प्राईवेट लिमिटेड
38	33969	नैक्सवेज स्ट्रैटजिक नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
39	34447	जिंदल मेटालिक्स लिमिटेड
40	33521	प्राईमगेट डिवेलपर्ज प्राईवेट लिमिटेड
41	31109	साईबरकेन सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड

विलास गजानन निपाने
सहा रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

एलएलपी नियम, 2009 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

सं. आर.ओ.सी/एलएलपी/2013—एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 की उपधारा (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीस दिन के अवसान पर मै. एसीबी फिल्मस्टार एंड माडल मेकर एलएलपी का नाम, प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उपरोक्त एलएलपी विघटित कर दी जाएगी।

विलास गजानन निपाने
सहा रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

एलएलपी नियम, 2009 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

सं. आर.ओ.सी/एलएलपी/2013—एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एलएलपी के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और निम्न एलएलपी विघटित हो गई हैं -

क्र.सं.	एलएलपी नं.	एलएलपी का नाम
1	AAA-8921	कौम आईटी सोल्यूसन एलएलपी
2	AAA-5634	पैनथारा टेक्नॉलोजीस एलएलपी
3	AAA-4016	गर्ग हॉस्पिटल एलएलपी
4	AAA-1961	सरवारा टेक्नॉलोजीस एलएलपी

विलास गजानन निपाने
सहा रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

सं. क.र./प०.बं०./एफटीई/560/2014—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा) 5 (के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 41 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र.सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U10100WB2008PLC125372	तिरु कोल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
2	U74999WB2011PTC166869	दी टूल्स स्टार हीट ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड
3	U85100WB1994PTC064898	मैपल डाइग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U85100WB2013PTC194719	परसेप्शन होस्पिटल कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
5	U72300WB2005PLC101089	जीआरएल टेक्नोलोजीस लिमिटेड

क्र .सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
6	U72900WB2008FTC130800	ब्लासतसिया टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
7	U15122WB2012PTC187169	सोवअमृत फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड
8	U80900WB2010PTC152588	एडुकेशन आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड
9	U74900WB2012PTC186530	आरएसबीएस एचआर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
10	U29299WB1950PTC018613	गुडमैन एंड कंपनी इंडिया (प्राइवेट लिमिटेड
11	U18204WB2013PTC191580	एरोलाइन क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U72300WB2013PTC194842	अलसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
13	U26900WB2005PTC106190	एच एफ आई ब्रेक लाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
14	U51909WB2005PTC105034	सजावट एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
15	U35122WB2009PTC132626	आशता विनायक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U74210WB1983PTC036354	पिरोजीवाला एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
17	U72300WB2013PTC191582	एरोलाइन आईटी सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
18	U28910WB2013PTC191526	एरोलाइन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U70103WB2002PTC094529	औरस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U01409WB2003PTC097394	बोलपुर-कोपाइ एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U74900WB2013PTC191793	मुंडाकरमा ई-कनेक्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
22	U19201WB1981PTC034163	गौर शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
23	U50402WB2012PTC181362	के दत्ता मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U51909WB1999PTC089031	स्वाती रसायन प्राइवेट लिमिटेड
25	U74999WB2007PTC121047	बीएमएस एड्वाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U52390WB2010PTC141283	लक्ष्मी डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U52390WB2010PTC141643	मिडो कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
28	U18101WB2007PTC113638	ओलिवर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U52190WB2010PTC141644	प्लानेट मर्चेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U52390WB2009PTC137807	गोल्डस्टार ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
31	U74999WB2010PTC154113	चियारोस्कुरो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
32	U45400WB2010PTC151429	रिलाइबल मल्टिफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U52390WB2010PTC151430	रिलाइबल ट्रेकसीम प्राइवेट लिमिटेड
34	U45400WB2012PTC181570	वैटस कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

क्र .सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
35	U55101WB2010PTC154521	रिलाइबल इन्न प्रीवाते लिमिटेड
36	U45400WB2012PTC181305	क्लाविस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U10100WB2010PTC151928	एनएसआर माईनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
38	U45400WB2011PLC168631	आईआईएस इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
39	U51909WB1988PTC043902	गुलाब चंद हंसराज प्राइवेट लिमिटेड
40	U01132WB1993PLC059924	रूपसा पेट्रोलियम लिमिटेड
41	U74900WB2010PTC151433	रिलाइबल डेली लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधुरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कंपनी अधिनियम, 1956 की है और निम्नलिखित कंपनियों के मामले में

बेंगलुरु, दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. आरओसी/560/(5) FTE—नोटिस एतद्वारा धारा उप के अनुसार दिया जाता है (5) खंड के बम से नीचे के नाम उल्लेख किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560, कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :—

सी.नो.	सीन	कंपनी नाम
1	U67100KA2012PTC066236	फिरस्फुटुरिस्टिक स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड

कीर्ति तेज एन
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
कर्नाटक

कंपनी अधिनियम, 1956 की है और निम्नलिखित कंपनियों के मामले में

बेंगलुरु, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

सं. आरओसी/560/(5) FTE—नोटिस एतद्वारा धारा उप के अनुसार दिया जाता है (5) खंड के बम से नीचे के नाम उल्लेख किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की 560, कंपनियों नंबर 1-2 रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :—

सी.नो.	सीन	कंपनी नाम
1	U74900KA2006PTC039650	एलीफेण्टा बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	U74140KA2012PTC065744	प्रवीण बिजनेस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

कीर्ति तेज एन
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
कर्नाटक

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 18th December 2014

No. DPPERS.I/2014/102/3/58/96-Pers-I—In pursuance of DoPT's order No. 221/08/2002-AVD-II(B) dated 31.10.2014, Shri Syed Sajid Ali, DSP, CBI has been dismissed from service w.e.f. 31.10.2014, which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

New Delhi-110003, the 19th December 2014

No. DPPERS.I/2014/103/11/53/2014—The President is pleased to appoint the following Assistant Public Prosecutors, CBI as Public Prosecutors in Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on promotion w.e.f. the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name of the Officers S/Shri	Date of appointment as Public Prosecutors
1	Gaikwad Prasant Kumar Bali Ram	23.05.2014
2	Madhavedra Saraswat	21.07.2014
3	Ms. Poornima Gupta	29.05.2014
4	Abhilash Kumar	22.05.2014
5	Arpit Anant Mishra	22.05.2014

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

No. DPPERS.I/2014/104/11/53/2014—The President is pleased to appoint the following Senior Public Prosecutors, CBI as Deputy Legal Advisor in Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on promotion w.e.f. the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name of the Officers S/Shri	Date of appointment as Deputy Legal Advisors
1	Ankur Sarkar	05.11.2014
2	D. K. Saxena	07.11.2014
3	V. N. Anil Kumar	26.11.2014
4	T. Venkata Ramana	27.11.2014
5	Shaila Kumar Bhat	10.11.2014
6	Brajesh Shukla	05.12.2014
7	Babu Lal Meena	14.11.2014
8	Ms. Beena Raizada	17.11.2014

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 5th January 2015

No. Admn. (G&SSA)/17-2(AO)/Vol. VIII/2556—In pursuance of OOC No. 1069 dated 31.12.2014 communicated vide memo No. Admn. (G&SSA)-17-2(AO)/Vol. VIII/2521 dated 31.12.2014 the following Asst. Audit Officer on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in Pay Band-2 (Rs. 9,300—Rs. 34,800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date as indicated against him.

S. No.	Name of Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Audit Officer
01.	Sudhakara Mahapatra	02.01.2015(AN)

BHAGABAN NAYAK
Sr. Audit Officer/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KERALA

Thiruvananthapuram, the 2nd January 2015

No. OE (E&C)/EIV/P/14-15/255:—

S. No.	Name	Designation	Date of retirement
1	Smt. Vasanthakumari V K	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2014 AN (Superannuation)
2	Sri. Aravindakshan T	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2014 AN (Superannuation)
3	Smt. Lekshmi Ammal D	Assistant Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2014 AN (Superannuation)
4	Smt. Beenamma M S	Assistant Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2014 AN (Superannuation)
5	Smt. Premakumari P M	Sr. Private Secretary, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2014 AN (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE

Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 31st December 2014

No. 5/1/2014-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 remained stationary at 253 (two hundred fifty three) for the month of November, 2014.

S.S. NEGI

Director

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 12th December 2014

No. DPS/07011/Rectt/4663—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints, Shri P. Raghukumar [Emp. No. 604], Sr. Purchase Assistant, (Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800 + grade pay Rs. 4,200/-), Hyderabad Regional Purchase unit (HRPU), DPS, Hyderabad as Assistant Purchase Officer in the (Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/-) at Indore Regional Purchase Unit, Indore w.e.f. the forenoon of 03 December 2014 (FN) until further orders.

S. Y. KAMBLE

Administrative Officer-III

No. DPS/07011/Rectt/4666—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints, Shri B. Anil Kumar [Emp. No. 664], Sr. Purchase Assistant, (Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800 + grade pay Rs. 4,200/-), Central Purchase Unit, CPU, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the (Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/-) in the same unit w.e.f. the forenoon of 01 December 2014 (FN) until further orders.

S. Y. KAMBLE

Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai - 400 094, the 29th December 2014

No. HWB/R/1(16)-Kota/2014/6123—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Kum. Anita Gangaram Vaze, Assistant Accountant (Pay Band-2, Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay Rs. 4,600/-) BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2, Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Kota) from the forenoon of 6th September, 2014 until further orders.

K.S. PILLAI

Administrative Officer-III

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 2nd December 2014

No. 27-SDG/M(1)/14-EC.II No. 1058—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt. Sipra Mitra, Special DG(HQ), Central Public Works Department, New Delhi has retired from Government Service with effect from 30.11.2014 (AN).

BISWANATH SAHOO
Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
O/O REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies
Chandigarh, the 31st December 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S.No.	Company No	Name of the Company
1	33421	Leads Business Services Private Limited
2.	32598	Tiwana Young Farmer Producer Company Private Limited
3.	35047	Indian Infra Heights Private Limited
4.	23906	Bhavik Infotech Private Limited
5.	37396	Panchtatva Infotel Private Limited
6.	38496	Luminous Mercantile Private Limited
7.	35340	Fateh Farm Fresh Private Limited
8.	06540	Indo Print Link Private Limited
9.	27341	Gurukul Adharshila Competitions Private Limited
10.	34191	Cirrus Health Concepts Private Limited
11.	22493	Saravdharam Educationists Limited
12.	29383	Divine Stock Advisors Private Limited
13.	35749	Social Search Book. Com Private Limited
14.	11388	Taska Steels Private Limited
15.	35872	Water Event Planners Private Limited
16.	34195	CSJ Hotels Private Limited
17.	33772	Kat Overseas Private Limited
18.	30839	Ideas Infrastructure Private Limited
19.	33756	Tantla Comp Private Limited
20.	23533	Aditcon Com Private Limited
21.	30993	Globe Promoters Private Limited
22.	34718	A-NPA Solution Private Limited
23.	37096	Royale Infra Marketing Private Limited
24.	33494	Cue Blocks E-Commerce Private Limited
25.	35881	MSB Infoservices Private Limited

S.No.	Company No	Name of the Company
26.	13542	Sajal Exports Private Limited
27.	34502	Frog Touch Networks Private Limited
28.	34054	UVR Promoters And Developers Private Limited
29.	28014	Sanaga Software Services Private Limited
30.	26817	ANR Visa Consultants Private Limited
31.	29887	Datta Digital Technologies Private Limited
32.	33253	Maur Constructions Private Limited
33.	36739	Sourcekey I.T Services Private Limited
34.	34217	North Zone Crushing Company Private Limited
35.	32371	BSS Ventures Private Limited
36.	26779	Kamal Nursing Home And Sekhri Truma Centre Pvt. Ltd
37.	34583	Spoonzo International Ventures Private Limited
38.	33986	Nexways Strategic Network Private Limited
39.	34447	Jindal Metalix Limited
40.	33521	Primegate Developers Private Limited
41.	31109	Cyberkan Soft Private Limited

VILAS GAJANAN NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of LLP Rules 2009 of the following Companies/LLP:-

Chandigarh, the 31st December 2014

No. ROC/LLP/2013—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that the expiration of thirty days from the date hereof the name of M/s. ACB Filmstar and Model Maker LLP unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved.

VILAS GAJANAN NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of LLP Rules 2009 of the following Companies:-

Chandigarh, the 31st December 2014

No. ROC/LLP/2013. - Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the following LLPs have been struck off from the Register and the said Companies are dissolved:-

S.No.	Company No	Name of the Company
1.	AAA-8921	M/s. Qaumm IT Solution LLP
2.	AAA-5634	M/s. Penthara Technologies LLP
3.	AAA-4016	M/s. Garg Hospital LLP
4.	AAA-1961	M/s. Sarwara Technologies LLP

VILAS GAJANAN NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 30th December 2014

No.ROC/WB/FTE/560/2014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 41 Companies have on this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :-

SLNo.	CIN	Name of the Company
1	U10100WB2008PLC125372	TIRU COAL PROJECTS LIMITED
2	U74999WB2011PTC166869	THE TOOLS STAR HEAT TREAT PRIVATE LIMITED
3	U85100WB1994PTC064898	MAPLE DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
4	U85100WB2013PTC194719	PERCEPTION HOSPITAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
5	U72300WB2005PLC101089	GRL TECHNOLOGIES LIMITED
6	U72900WB2008FTC130800	BLASTASIA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
7	U15122WB2012PTC187169	SOVAMRIT FOOD & BEVERAGE PRIVATE LIMITED
8	U80900WB2010PTC152588	EDUCATION IDEAS PRIVATE LIMITED
9	U74900WB2012PTC186530	RSBS HR MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
10	U29299WB1950PTC018613	GOODMAN & CO (INDIA) PVT LTD
11	U18204WB2013PTC191580	ARROWLINE CLOTHINGS PRIVATE LIMITED
12	U72300WB2013PTC194842	ALSA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
13	U26900WB2005PTC106190	H F I BRAKE LINING PVT LTD
14	U51909WB2005PTC105034	SAJAWAT EXIM PRIVATE LIMITED
15	U35122WB2009PTC132626	ASHTA VINAYAK TRADERS PRIVATE LIMITED
16	U74210WB1983PTC036354	PIROJIWALA & CO PVT LTD
17	U72300WB2013PTC191582	ARROWLINE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
18	U28910WB2013PTC191526	ARROWLINE METALS PRIVATE LIMITED
19	U70103WB2002PTC094529	AUREUS PROJECTS PRIVATE LIMITED
20	U01409WB2003PTC097394	BOLPUR-KOPAI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
21	U74900WB2013PTC191793	MUNDAKARAMA E-CONNECT SERVICES PRIVATE LIMITED
22	U19201WB1981PTC034163	GOUR SHOE CO PVT LTD
23	U50402WB2012PTC181362	K DUTTA MOTORS PRIVATE LIMITED
24	U51909WB1999PTC089031	SWATI RASAYAN PRIVATE LIMITED
25	U74999WB2007PTC121047	BMS ADVISORS PRIVATE LIMITED
26	U52390WB2010PTC141283	LAXMI DEALERS PRIVATE LIMITED
27	U52390WB2010PTC141643	MEADOW COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
28	U18101WB2007PTC113638	OLIVER EXPORTS PRIVATE LIMITED
29	U52190WB2010PTC141644	PLANET MERCHANTS PRIVATE LIMITED
30	U52390WB2009PTC137807	GOLDSTAR TRADELINK PRIVATE LIMITED
31	U74999WB2010PTC154113	CHIAROSCURO MEDIA PRIVATE LIMITED
32	U45400WB2010PTC151429	RELIABLE MULTIPLEX PRIVATE LIMITED
33	U52390WB2010PTC151430	RELIABLE TREXIM PRIVATE LIMITED
34	U45400WB2012PTC181570	VENTUS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
35	U55101WB2010PTC154521	RELIABLE INN PRIVATE LIMITED
36	U45400WB2012PTC181305	CLAVIS BUILDERS PRIVATE LIMITED
37	U10100WB2010PTC151928	NSR MINING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
38	U45400WB2011PLC168631	IIAS INFRASTRUCTURES LIMITED

SLNo.	CIN	Name of the Company
39	U51909WB1988PTC043902	GULAB CHAND HANSRAJ PVT LTD
40	U01132WB1993PLC059924	RUPSA PETROLEUM LTD
41	U74900WB2010PTC151433	RELIABLE DAILY LIFE CARE PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 17th November 2014

No. ROC/560(5) FTE—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the undermentioned Company has been struck off from the Register and the said Company stand dissolved :-

Sl. No.	CIN	Company Name
1	U67100KA2012PTC066236	FIRSTFUTURISTIC STOCK BROKING PRIVATE LIMITED

KEERTHI THEJ N
Asst. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 19th December 2014

No. ROC/560(5) FTE—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the undermentioned Companies from serial number 1 to 2 have been struck off from the Register and the said Companies stand dissolved :-

SL. No.	CIN	Company Name
1	U74900KA2006PTC039650	ELEPHANTA BUSINESS CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
2	U74140KA2012PTC065744	PRAVINA BUSINESS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

KEERTHI THEJ N
Asst. Registrar of Companies
Karnataka

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in